



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22। नई दिल्ली, शनिवार, मई 29--जून 4, 2004 (ज्येष्ठ 8, 1926)

No. 22। NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29--JUNE 4, 2004 (JYAISTHA 8, 1926)

इस भाग में गिज़ेट एक संकलन दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० आर० एस०/6(IV)/2004/17-क.मि.क--श्री एन०
के० व्यास, जिनकी नियुक्ति राज्य सभा के पटल पर रखे गए
पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ
निजी सचिव के रूप में सहपदवसान के आधार पर की गई थी,
की सेवाएं 31 मार्च, 2004 के अपराह्न से समाप्त की
जाती हैं।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सचिव के रूप में अस्थायी रूप से स्थानापन्न रूप से कार्य करने
के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री आनंद काकाणी की नियुक्ति राज्य सभा की सभा
पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के
विपेक्षाधीन है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त
हो जाएगी।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

दिनांक 17 मई 2004

सं० आर० एस० 6 (iv)/2004/18-क.मि.क--श्री आनंद
काकाणी को राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा की सभा
पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक
स्टाफ में 1 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक
10,000-325-15200 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ निजी

सं० आर० एस० 3(vi)/2004/49-क.मि.क--राज्य सभा के
सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री
एस० के० ठकराल को 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी
आदेशों तक इस सचिवालय में मुख्य प्रधान निजी सचिव के रूप
में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की हुंदा
की है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस० 3(vi)/2004/50-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में प्रधान निजी सचिव श्रीमती कमलेश वर्मा को 12 मई 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस/3(vi)/2004/51-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव श्रीमती अनीता चुध को श्री वी० के० पन्त, प्रधान निजी सचिव की प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, इस सचिवालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्रीमती पार्ष्वनी वेंकटाचलम, जिन्हें अधिसूचना सं० आर.एस./3(vi)/2003/42-कार्मिक, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रतिनियुक्ति रिक्ति के स्थान पर प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पूर्व में नियुक्त किया गया था, को अब 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आर एस० 3(vi)/2004/52-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव श्रीमती संगीता को प्रधान निजी सचिव श्री वी० के० पंत की प्रतिनियुक्ति शृंखला रिक्ति के स्थान पर 12 मई 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्रीमती सुरिन्दर कौर, जिन्हें अधिसूचना सं० आरएस० 3-(vi)/2003/43-कार्मिक, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रतिनियुक्ति शृंखला रिक्ति के स्थान पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पूर्व में नियुक्त किया गया था, को अब उक्त संवर्ग में 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

सं० आरएस० 3 (vi)/2004/53-कार्मिक—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वैयक्तिक सहायक श्री सुरेश कुमार को प्रधान निजी सचिव श्री वी० के० पंत की प्रतिनियुक्ति शृंखला रिक्ति के स्थान पर 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न

से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री अनिल चोड़ा, जिन्हें अधिसूचना सं० आरएस० 3 (vi)/2003/44-कार्मिक, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रतिनियुक्ति शृंखला रिक्ति के स्थान पर (निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए पूर्व में नियुक्त किया गया था, को अब उक्त संवर्ग में 12 मई, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० पीएफ 1297(3)/ए एन-1/जी एन-5153/2004—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री कृष्ण लाल, निदेशक 30 अप्रैल, 2004 के अमराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1171(3)/ए एन-1/जी एन-5154/2004—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री नन्द किशोर कौर, सहायक निदेशक 30 अप्रैल, 2004 के अमराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 मई 2004

सं० पीएफ 2571(3)/जीएन-5155/ए एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय, मननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्री मनोहर जोशी) के वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री वी० आर० रंदेश, अवर सचिव को, जिन्हें 17 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० जी० एन० 5119/2004 के द्वारा तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 15,100-400-18,300 रु० के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर 3 मई, 2004 से आगामी आदेशों तक सहर्ष प्रोत्सायन पदोन्नति प्रदान करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पी एफ 2182(3)/जी एन-5156/ए एन-1/2004—अध्यक्ष महोदय, 12750-16500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत, श्री अशोक कुमार सिंह को 15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 3 मई, 2004 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1119(3)/जीएन-5157/एएन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, श्री राज कुमार सक्सेना, अवर सचिव को, जिन्हें दिनांक 25 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० जी० एन 4998/2003 के द्वारा तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, 12750-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 3 मई, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 2304(3)/जीएन-5158/एएन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, श्रीमती अनीता पंडा, सहायक निदेशक को, जिन्हें दिनांक 17 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० जी० एन 5061/2004 के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 3 मई, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1986(3)/जीएन-5159/एएन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 10000-15200 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत, श्री पवन कुमार को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 3 मई, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० पीएफ 1279(3)/जीएन-5160/एएन-I/2004—
अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विभागी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10000-325-15200 रु० के वेतनमान में नीचे दर्शाए गए क्रम में, सहायक निदेशक के ग्रेड में 3 मई, 2004 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री आर० डी० सिलावट
2. श्रीमती एस० के० जोहर।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 11 मई 2004

सं० ए-19014/1/2004-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री कपिल कौल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में अवर सचिव के पद पर वेतनमान 10,000-325-15,200/- रु० में दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

कृष्ण दत्त, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अप्रैल 2004

सं० ए-32013/1/2004-प्रशा० I—राष्ट्रपति, वर्तमान उप सचिव (स्वस्थान), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में श्री ए० एन० बडियार तथा अबरार हुसैन को 24-3-2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० सी० दास, वरिष्ठ विश्लेषक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2004

सं० ए-60011(113)/2000-प्रशा०-II(वि०का०)—
केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए, एतद्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारत सरकार द्वारा विहित सामान्य निबन्धनों और शर्तों पर दिनांक 11-5-2004 के अपराह्न से 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में रु० 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में सदस्य-सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

आर० एल० कोली, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 मई 2004

सं० के० 11019/5/2004-पू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री काब्रुदीन को 11 मई, 2004 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2004

सं० 20/जी/2524-प्रशा० I—राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, भा० प्र० से० (गुजरात:72) को गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में दिनांक 11 मई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भट्टनागर, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2004

सं० 12018/8/2001-रा०भा० (का० 1)—राष्ट्रपति सहर्ष श्री विश्वनाथ झा को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 5-4-2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इन दोनों में जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

(श्रीमति) सरोज जैसिया, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2004

सं० ए०-32014/2/2004-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा गृह मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित स्थाई सहायक की गृह मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (6500-10500/- रुपए) में तदर्थ आधार पर नियुक्ति, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए करते हैं :—

नाम	अनुभाग/डैरवः	अनुभाग अधिकारी के पद जहाँ तैनात हैं	पर पदोन्नति की तारीख
1	2	3	
सर्वश्री			
यशपाल पुरी	स्थापना (ख)	25-03-2004	
राजेंद्र कुमार	एम०एम०	-वही-	
एस०के० चड्ढा	कैटोन	26-03-2004	
जे०सी० भट्ट	रोकड़	25-03-2004	
सी०एल० कालिया	अवर सचिव (एस०-II)	01-04-2004	
वी०पी० गुप्ता	अ०भा०से०-III	-वही-	
कैलाश चन्द्र मीशा	के०से०-I	25-03-2004	
श्रीमती अरुणा मिरानी	पेंशन	-वही-	
के०एल० आनंद	अ०भा०से०-I	01-04-2004	
तेजपाल शर्मा	प्रशासन-I	-वही-	
जगदीश राज अहूजा	आरक्षण	25-03-2004	
श्रीमती प्रोमिला उन्मत्त	ई०ओ० (एस०एम०-I)	01-04-2004	
शिव दत्त बत्रा	संसद	25-03-2004	
वी०के० मिश्रा	ए०सी०सी०	-वही-	
आर०पी० शर्मा	पेंशन	-वही-	

1	2	3
श्रीमती सविता पांथी	अ०भा०से०-III	25-03-2004
श्रीमती आशा कुमारी गुप्ता	अ०भा०से०-I	-वही-
श्रीमती शैल बाला चौधरी	लो०उ०च० बोर्ड	-वही-
शान्ती लाल कथुरिया	31-03-2004 को सेवानिवृत्त	-वही-
सुदेश कुमार	प्रशासन-III	-वही-
श्रीमती बिमला चड्ढा	ई०ओ० (पी०आर०)	-वही-
आर०एस० इंदौरा	वेतन-II	-वही-
श्रीमती अकुन्तला शर्मा	कल्याण	-वही-
राधा गोविन्द	एस०आर० (एस०)	-वही-
राजेंद्र कुमार गुप्ता	स्थापना (भत्ते)	-वही-

बी० के० वेलुकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2004

सं० 23 (फा०से० 50/29/2004-प्रशा० 1)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के का० जा० सं० 21/11/2004-सी एस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, के०से० के निम्नलिखित नियमित अवर सचिवों जो वर्तमान में उप सचिव (इन-सिटू) के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें दिनांक 25-3-2004 से और अगले आदेश होने तक, राजस्व विभाग में 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में के०से० के चयन ग्रेड में तदर्थ आधार पर उप सचिव नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	उप सचिव का नाम	चयन सूची वर्ष	सिविल सूची सं०
1.	श्री एस० पी० शर्मा	1988	44
2.	श्री वी० के० शर्मा	1989	67
3.	श्री एस० सी० गुप्ता	1990	152
4.	श्री राजीव राय	1991	228
5.	श्री अनिल बडुगुणा	1991	234

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन-सूची/सिविल सूची में शामिल होने के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में (उप सचिव) बरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं देती है।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० एफ० 3/35/2003-मुद्रा-III--राष्ट्रपति, श्री ए० पी० कुलकर्णी, भारत प्रतिभूति प्रैस, नासिक रोड में उप नियुक्त अधिकारी को नियमित आधार पर 23 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से उसी प्रैस में 8000-13500 रु०ए के वेतनमान में नियुक्त अधिकारी (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2004

सं० एफ० 3/8/2004-मुद्रा-III--राष्ट्रपति, श्री डी०सी० परमार, सहायक मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी), भारत प्रतिभूति मुद्रणालय प्रैस/करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग के अधिकारी को 1-4-2004 के पूर्वाह्न से 10000-325-15200 रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर उसी संवर्ग में आगामी अदे। होने तक उा मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी) (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2004

सं० एफ० 3/40/2003-मुद्रा-III--प्रतिभूति प्रैस तथा करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड, के सम्मिलित संवर्ग में श्री आर० पी० कुलकर्णी, उप कारखाना प्रबंधक के सेवा निवृत्ति को आयु पूरी होने पर दिनांक 31-3-04 (अपराह्न) से उप कारखाना प्रबंधक, करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड के कार्यभार को त्याग दिया है। करेंसी नोट प्रैस से उनके नाम को उसी तिथि से हटा दिया गया है।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2004

सं० ए० 12011/10/2004 प्रशा०-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16-4-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/06/2004-सी० एस०-1 (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग की एक नियमित अनुभाग अधिकारी सुश्री जी० मधुमति को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 16-4-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति से सुश्री जी० मधुमति को सी एस एस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० ए-1911/4/2004-प्रशा०-II--राष्ट्रपति, श्रीमती विनी महाजन, भा० प्र० सं० (पंजाब : 87) को दिनांक 30 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 15,100-400-18,300/-रुपए के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2004

सं० ए०-12011/1/2004-प्रशा०-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/9/2004-सीएस-I के अनुसरण में वित्त संवर्ग के (सीएसएस के) निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 25-3-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

सर्वश्री

1. पी० के० राजपाल
2. एस० के० बंसल
3. आर० डी० कटारिया
4. रमेश कुमार
5. टी० एस० निर्मल
6. स्वतन्त्र बन्धु
7. चिन्मय गुप्ता
8. जसमल सिंह
9. आर० पी० शर्मा
10. विद्या सागर
11. एस० के० कटारिया
12. ओ० पी० सैनी

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी —

(i) इन तदर्थ नियुक्तियों, जो एक अस्थायी व्यवस्था है, से उन्हें अनिश्चित समय तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/सीधी भर्ती द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति पाने वालों के इन श्रेणियों में से किसी में भी नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(iii) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्त व्यक्ति अगले आदेश होने तक, इसी विभाग में कार्य करते रहेंगे। तथापि के०स०से० की संवर्ग पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में परिशोधित पद संख्या का आवंटन करते समय अथवा तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में, उन्हें अन्य संवर्गों/विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए०-1201/1/2004-प्रशा० II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-03-2004 के कार्यालय जापन संख्या 4/2/2004-सीएस-II के अनुसरण में वित्त संवर्ग के (सीएसएस के) निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 1-4-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

सर्वश्री

1. सुश्री सुनीता सक्सेना
2. पी० सी० छिकारा
3. आर० एन० झा
4. एस० के० खुराना
5. एम० एल० सूद
6. श्री० पी० यादव
7. एस० के० सिंह

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

1. इन तदर्थ नियुक्तियों, जो एक अस्थायी व्यवस्था है, से उन्हें अनिश्चित समय तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा/सीधी भर्ती द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति पाने वालों के इन श्रेणियों में से किसी में भी नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें हायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

3. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्त व्यक्ति अगले आदेश होने तक, इसी विभाग में कार्य करते रहेंगे। तथापि के०स०से० की संवर्ग पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप,

अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में परिशोधित पद संख्या का आवंटन करते समय अथवा तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में, उन्हें अन्य संवर्गों/विभागों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2004

सं० ए-19011/6/2004-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री प्रशान्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प० बंगाल : 88) को दिनांक 6-5-2004 (अपराह्न) से उनके कार्यकाल की शेष अवधि तक, अर्थात् दिनांक 7-9-2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० 14/2/01-डीआरटी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नई के कार्यालय में 10,000-15,200/- रु० के वेतनमान में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री आर० पांडियन की प्रतिनियुक्ति अवधि में 19-4-04 से 18-4-05 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक जो भी पहले हो, वृद्धि करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० 14/2/01-डीआरटी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़ के कार्यालय में 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त श्री योगेश जैन की प्रतिनियुक्ति अवधि में 15-5-2004 से 14-5-2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वृद्धि करते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 मई 2004

सं० ए-12025/1/2के1/एम० एक० सीजीए/गुप ए/649-58—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2002 में आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2002 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय सिविल लेखा

सेवा (समूह-क) में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री होमकर अमोल विनुकांत	22-03-2004
2.	श्री आलोक कुमार वर्मा	22-03-2004
3.	श्री रामा कृष्णा बंदी	22-03-2004

धरित्री पांडा, उप महालेखा नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2004

सं० ए-32013/1/2002-संवर्ग-—राष्ट्रपति, श्री एम० सी० चक्रवर्ती, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (93), को पूति तथा निपटान महानिदेशालय में निदेशक (सतर्कता) (उप सचिव स्तर) के पद पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर 12,000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में 11 मई, 2004 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

वी० के० शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० ए-12011/1/2004-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री संजय जोशी, भा० प्र० सं० (भा० प्र० : 83) को दिनांक 23 अप्रैल 2004 (पूर्वाह्न) से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर उनके पांच वर्षों के सामान्य कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 20 मार्च, 2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजय जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के कार्यालय का पदभार पूर्वोक्त तारीख को संभाल लिया है।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 मई 2004

सं० ए-19011/3/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के का० शा० सं० 4/7/2003-सी एस-1 के अनुसरण में और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I की वर्ष 1996 की चयन सूची में शामिल होने के फलस्वरूप विनिवेश मंत्रालय में श्री सूर्य माइति अवर

सचिव (तदर्थ) को अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 1-7-1996 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद पर श्री माइति की नियुक्ति श्री आर० के० ओझा और सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा भारत संघ और अन्यो के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

3. श्री सूर्य माइति को (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद के वेतन एवं भत्तों के वास्तविक लाभ 30-10-1998 से, जिस तारीख से उन्हें श्रम मंत्रालय के दिनांक 20-11-1998 के का० आ० सं० ए-11015/1/98-प्रशा०-I द्वारा अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद पर स्व-स्थाने आधार पर नियुक्त किया गया था।

एस० के० बन्दीपाध्याय, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं० 17013/3/2000-भा० ब० सेवा-II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा भर्ती नियम 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1998, 1999 और 2000 की चयन सूची के आधार पर बिहार राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियम 5 उपनियम (1) के अंतर्गत तथा दिनांक 11 मई/जून 2003 के केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर पूर्व बिहार के राज्य वन सेवा संवर्ग को अलग करते हुए क्रमशः बिहार और झारखंड संवर्ग आवंटित करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	चयन सूची का वर्ष	जन्म तिथि	आवंटित संवर्ग
सर्व श्री				
1.	जे० पी० एन० सिन्हा	1998	22-01-1958	झारखण्ड
2.	अनूप कुमार सिन्हा	1998	01-07-1958	झारखण्ड
3.	बबन प्रसाद सिन्हा	1999	01-07-1958	झारखण्ड
4.	युगल किशोर मिह	1999	28-04-1953	झारखण्ड
5.	सुधीर कुमार ठाकुर	1999	01-03-1958	बिहार
6.	एस० एन० पाण्डेय	2000	17-01-1956	बिहार
7.	राजबंश सिंह	2000	04-11-1957	बिहार

जी० देवनानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2004

सं० 17013/05/2003-भा० व० सेवा II—भारतीय जन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2003 की चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की एक बैठक 27 अक्टूबर 2003 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अब अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय जन सेवा के संबंध में 1 जनवरी 2003 को उपलब्ध पदोन्नति रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा राज्य सेवा के निम्नलिखित दो सदस्यों के नाम शामिल हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्व श्री	
1.	एस० के० गोयल	07-05-1949
2.	एम० एस० मलिक	07-04-1949

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2004

सं० ए-12025/4/2001-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० पंकज सिंघल को 17-9-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० पंकज सिंघल को भारत सरकार भद्रनगर, मायापुरी, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2004

सं० ए० 12025/87/2001-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० रजत कुमार प्रधान को 22-03-2002 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० रजत कुमार प्रधान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2004

सं० ए० 12025/367/91-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० नरेश उदरम तमाने को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० नरेश उदरम

तमाने को उती तरीख से श्रम कल्याण संगठन, नागपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/469/92-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० राकेश सिंह को 9-11-1992 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 (पूर्व संशोधित) रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० राकेश सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2004

सं० ए-19011/7/2004-ग सन-1—राष्ट्रपति, सी एस एस के नियमित ग्रेड-I अधिकारी, श्री के० एस० चन्द्रहसन, को 24 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश तक पशुपालन एवं डेयरी विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव नियुक्त करते हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 28 अप्रैल 2004

सं० ए-12018/1/2003-स्थापना-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को डायरी सं० 169/2004 स्थापना (ए) दिनांक 12-2-04 व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 61/2/2002 आई० सी० दिनांक 15-3-2004 एवं आर्थिक कार्य विभाग के आई० डी० सं० 13016/2/2003-आई० ई० एस० दिनांक 12-4-2004 द्वारा सूचित अनुमोदन के अनुपालन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-I (भारतीय आर्थिक सेवा के फीडर पद) के पदों का नाम बदलकर आर्थिक अधिकारी (समूह ख-राजपत्रित) कर दिया गया है जिसका वेतनमान 6500-200-10500 रु० है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय के निम्नलिखित आर्थिक अन्वेषक ग्रेड-I के वर्तमान पदनाम को बदलकर आर्थिक अधिकारी (समूह ख-राजपत्रित) कर दिया गया है जो 28 अप्रैल 2004 के पूर्वाह्न से लागू होगा :—

1. डा० एन० के० सिन्हा
2. श्री राम पाल सिंह
3. डा० महिपाल-एच० आई० आर० डी० में प्रतिनियुक्ति पर
4. श्री रंजन मुखर्जी
5. श्री सुबे सिंह
6. श्री राज पाल सिंह
7. श्री ए० के० भाटिया
8. श्री सुशील कुमार जसवाल
9. श्रीमती रेणु भटनागर-एन० सी० एम० के० में प्रतिनियुक्ति पर
10. श्री जनक राय

11. श्री एल० आर० भाटिया
12. श्री दामोदर बबाडी
13. श्री अनिल कुमार
14. श्री पी० एस० दलौदिया
15. श्री अशोक कुमार सिंह
16. श्री नीरज श्रीवास्तव

बी० बी० सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मानव संसाधन विभाग मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० 3-2/2004-प्रशासन I--राष्ट्रपति, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अप्रैल, 2004 के पत्र संख्या 4/2/2004-ई०ओ० (एस०एम०-I) के अनुपालनार्थ, श्री चमन कुमार, आई०ए०एस० (गुजरात : 78) को 5 मई, 2004 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 4 मई 2009 तक अथवा आभासी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० सावित्री, उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० एफ 15-6/2001-स्था०—अधिवसिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री गुरबचन सिंह, के० सं० सं० ने दिनांक 30 अप्रैल, 2004 (अपराह्न) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार का पदभार छोड़ दिया है।

एस० सी० गुलाटी, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2004

सं० एफ० 15-2/2004-स्था०—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री ए० बनर्जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री ए० बनर्जी ने दिनांक 30 अप्रैल, 2004 (अपराह्न) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० सी० गुलाटी, अवर सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० एनआईसी/पी० एफ/67/2004-प्रशा० I--श्री बंधु कुमार मेहता, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड सं० 67), राष्ट्रीय 2-82 GI/04

सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30-04-2004 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से अधिवसिता पर सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें उती दिन से इयूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

प्रियम सुन्दर, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० ए० 19011/4/2004-स्था०--कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कामिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति सचिवालय के दिनांक 5 अप्रैल, 2004 के आदेश संख्या 4/3/2004-ई०ओ० (एस०एम०-I) के अनुसरण में श्री लम्बोर रिजाह, आई०ए०एस० (ए०एम० : 74) ने 5 मई, 2004 (पूर्वाह्न) से संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अंजू भल्ला, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० ई आर बी-I/2003/3/11—श्री अनिल खटवानी, मुख्य विधि सहायक [ग्रेड 6500-10,500/- रु० (ग्रुप सी)], रेलवे बोर्ड को 2-04-2004 (अपराह्न) से नियमित आधार पर 7500-12,000/- रु० के ग्रेड में अधीक्षक (विधि), रेलवे (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में स्थानापन्न रूप में पदोन्नत किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

दिनांक 07 मई 2004

सं० ई आर बी-I/2004/2/19--डॉ० डी० के० दास, भारतीय रेल चिकित्सा सेवा, मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर रेलवे को 19-04-2004 के पूर्वाह्न से 26000/- रु० (नियत) ग्रेड में महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ई आर बी-I/2004/2/25—श्री डी० आर० शर्मा, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड को 21-4-2004 के अपराह्न से, 24050--26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (वाणिज्य) रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ईमारबी-1/2004/2/25—श्री जे० पी० बत्रा, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड को 21-4-2004 के अपराह्न से 24,050—26,000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन अपर सचिव

सं० ईमारबी-1/2004/2/25—श्री आर० एल० थापर, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड को 21-4-2004 के अपराह्न से 24,050—26,000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एन० माथुर, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
पदेन अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2004
शुद्धिपत्र

सं० 93/स्था० (राज० भ) I/3/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 29-9-2000 की अधिसूचना सं० 96/स्था० (राज० भ) I/3/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने उल्लिखित अनंतिम शब्द को हटा दिया जाए :—

सर्वश्री

1. अनिल कुमार खरे
2. राजू पी० भाडके
3. अखिलेश साहू
4. अतुल कुमार
5. हरि सिंह

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

सं० 96/स्था० (राज० भ) I/8/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 12-6-2001 की अधिसूचना सं० 96/स्था० (राज० भ) I/8/1 में उल्लिखित श्री भारतूला विश्वनाथ के नाम के सामने उल्लिखित अनंतिम शब्द को हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

सं० 96/स्था० (राज० भ) I/9/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 18-10-2000 की अधिसूचना सं० 96/स्था० (राज० भ) I/9/1 में उल्लिखित श्री रामफूल चंदेल के नाम के सामने उल्लिखित अनंतिम शब्द को हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)
रेलवे बोर्ड

सं० 99/स्था० (राज० भ) I/4/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 04-8-2000 की अधिसूचना सं० 99/स्था० (राज० भ) I/4/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने उल्लिखित अनंतिम शब्द को हटा दिया जाए :—

क्र० सं० सर्वश्री

1. संयुक्त मो० अनशालीब राजी
3. मनीष कुमार
3. दीलिप आर० अवालकर
4. आशीष कुमार
5. समीर शंकर
6. रवि प्रसाद पांडी
7. पंकज उके
8. पंकज अग्रवाल

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं० ए-12032/1/2000-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एम० के० त्रेहन को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में दिनांक 1-04-2004 से सात साल की पदावधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो एवं सात साल की पदावधि और सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, पोत परिवहन मंत्रालय में उप सचिव (इन-सीटू) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 2004

सं० ए-12033/2/2004-स्था०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अवर सचिवों (इन-सीटू), जो कि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में कार्यरत हैं, को दिनांक 25-3-2004 से इसी मंत्रालय में अवर सचिवों (तदर्थ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं० सर्वश्री

1. एन० बारिक
2. आर० के० बंसल
3. जी० आर० खेतपाल
4. सुभाष चन्द
5. बी० पी० राणा
6. बी० के० अग्रवाल

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2004

सं० आई-26011/18/2002-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एस० के० शाही, जो कि वर्तमान में पोत परिवहन मंत्रालय में अवर सचिव (तदर्थ) आधार पर कार्यरत हैं, को 1996 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी I की चुनिंदा सूची में सम्मिलित होने पर दिनांक 1-7-1996 से इसी मंत्रालय में अवर सचिव (नियमित) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए० के० मल्ला, निदेशक

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 11th May 2004

No. RS/6(iv)/2004/17-Perl.—The services of Shri N.K. Vyas who had been appointed as Senior Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha stand terminated with effect from the afternoon of the 31st March, 2004.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/6(iv)/2004/18-Perl.—Shri Anand Kakani has been temporarily appointed to officiate as Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha with effect from the forenoon of the 1st April 2004, until further orders.

The appointment of Shri Anand Kakani is at the discretion of the present Chairman, Committee on Papers Laid on the Table, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(vi)/2004/49-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri S.K. Thakral, Senior Principal Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Chief Principal Private Secretary in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(vi)/2004/50-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Kamlesh Verma, Principal Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Senior Principal Private Secretary in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(vi)/2004/51-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Anita Chugh, Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Principal Private Secretary in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, against the deputation vacancy of Shri B.K. Pant, Principal Private Secretary, until further orders.

2. Smt. Parvathy Venkitachalam, who was earlier appointed to officiate as Principal Private Secretary against the deputation vacancy vide Notification No. RS/3(vi)/2003/42-Perl. dated 18th November, 2003 has now been appointed on regular basis with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, in that grade until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(vi)/2004/52-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Sangita, Private Secretary

in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Senior Private Secretary in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, against the deputation chain vacancy of Shri B.K. Pant, Principal Private Secretary, until further orders.

2. Smt. Surinder Kaur, who was earlier appointed to officiate as Senior Private Secretary against the deputation chain vacancy vide Notification No. RS/3(vi)/2003/43-Perl. dated 18th November, 2003 has now been appointed on regular basis with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, in that grade until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/3(vi)/2004/53-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Suresh Kumar, Personal Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Private Secretary in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, against the deputation chain vacancy of Shri B.K. Pant, Principal Private Secretary, until further orders.

2. Shri Anil Chopra, who was earlier appointed to officiate as Private Secretary against the deputation chain vacancy vide Notification No. RS/3(vi)/2003/44-Perl. dated 18th November, 2003 has now been appointed on regular basis with effect from the forenoon of the 12th May, 2004, in that grade until further orders.

P.R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 30 April 2004

No. PF.1297(3)/AN-I/GN-5153/2004.—On attaining the age of superannuation, Shri Krishna Lai, Director has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1171(3)/AN-I/GN-5154/2004.—On attaining the age of superannuation, Shri Nand Kishore Keer, Assistant Director has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 05 May 2004

No. PF.2571(3)/GN-5155/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri V.R. Ramesh, presently on deputation as Private Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Shri Manohar Joshi) and who was appointed as Director on ad-hoc vide Notification No. GN-5119/2004 dated the 17th February, 2004, as Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 on regular basis with effect from 3rd May, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.2182(3)/GN-5156/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Singh, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-16500 to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 on ad-hoc basis with effect from 3rd May, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1119(3)/GN-5157/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri Raj Kumar Saxena, Under Secretary who was appointed as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. GN-4998/2003 dated 25th September, 2003 to the grade of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12750-375-16500 on regular basis with effect from 3rd May, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.2304(3)/GN-5158/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Anita Panda, Assistant Director, who was appointed as Under Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. GN-5061/2004 dated 17th February, 2004 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on regular basis with effect from 3rd May, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1986(3)/GN-5159/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-15200 to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad hoc basis with effect from 3rd May, 2004 until further orders.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. PF.1279(3)/GN-5160/AN-I/2004.—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8000-13500 to the grade of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200, in the order shown below, with effect from 3rd May, 2004 until further orders :—

1. Shri R.D. Silawat
2. Smt S.K. Johar

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110 066, the 11 May 2004

No. A-19014/1/2004-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Kapil Kaul as Under Secretary in the National Security Council Secretariat in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from the forenoon of 30th April, 2004 on deputation basis for a period of 2 years or until further orders, whichever is earlier.

KRISHNA DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P.I. (CENTRAL STATISTICAL ORGANISATION)

New Delhi, the 27 April 2004

No. A-32013/1/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint S/Shri A.N. Bardaiyar and Abrar Hussain presently Deputy Secretary (in-situ) in the Ministry of Statistics & Programme Implementation as Deputy Secretary on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 24.03.2004.

S.C. DAS, Sr. Analyst

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 14 May 2004

No. A-60011(113)/2000-Admn.III(LA).—In pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Legal Services Authority Act, 1987, as amended from time to time, the Central Government hereby appoints Shri Kamlesh Kumar, an Additional District and Session Judge in the Delhi Higher Judicial Service as the Member Secretary in the National Legal Services Authority, in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- for a period of two years with effect from the afternoon of 11.5.2004 on deputation basis on usual terms and conditions as prescribed by the Government of India.

R.L. KOLI, Jt. Secy. & Legal Adviser

(Department of Justice)

New Delhi-110 011, the 11 May 2004

No. K.11019/5/2004-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Fakhruddin, Judge of the Chhattisgarh High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from May 11, 2004.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14 May 2004

No. 20/G/2524-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Mishra IAS(GJ:72) as Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 11 May, 2004 until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

(Department of Official Language)

New Delhi, the 17 May 2004

No. 12013/8/2001-OL(Impl.-I).—The President is pleased to appoint Shri Bishwanath Jha as Deputy Director (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 5.4.2004 (F.N.) for a period of three years or till further orders whichever is earlier.

SMT. SAROJ JAISIA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 12th May 2004

No. A.32014/2/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs to officiate in the Section Officer Grade (Rs. 6500-10500) of the said cadre on ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against each till regular Section Officers become available or until further orders whichever is earlier.

Sl. No.	Name	Section/Desk where posted	Date of promotion as Section Officer
(S/Shri)			
1.	Yashpal Puri	Estt. B	25.3.04
2.	Rajendra Kumar	M.M.II	25.3.04
3.	S.K. Chadha	Canteen	26.3.04
4.	J.C. Bhatt	Cash	25.3.04
5.	C.L. Kalia	US(S.II)	01.4.04
6.	V.P. Gupta	AIS.III	01.4.04
7.	Kailash Chand Meena	CS.I	25.3.04
8.	Smt. Aruna Mirani	Pension	25.3.04
9.	K.L. Anand	AIS.I	01.4.04
10.	Tejpal Sharma	Admn.I	01.4.04
11.	Jagdish Raj Ahuja	Reservation	25.3.04
12.	Smt. Promila Unmat	EO(SM.I)	01.4.04
13.	Shiv Dutt Batra	Parliament	25.3.04
14.	P.K. Mishra	ACC	25.3.04
15.	R.P. Sharma	Pension	25.3.04
16.	Smt. Savita Pandhi	AIS.III	25.3.04
17.	Smt. Asha Kumari Gupta	AIS.I	25.3.04
18.	Smt. Shail Bala Choudhary	PESB	25.3.04
19.	Shanti Lal Kathuria	Retired on 31.3.2004	25.3.04
20.	Sudesh Kumar	Ad.III	25.3.04
21.	Smt. Bimla Chaddha	EO(PR)	25.3.04
22.	R.S. Indora	Pay.II	25.3.04
23.	Smt. Shakuntala Sharma	Welfare	25.3.04
24.	Radha Govind	SR(S)	25.3.04
25.	Rajendra Kumar Gupta	Estt (Allow)	25.3.04

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22nd April 2004

No. 23 (F. No. 50/29/2004-Ad.I).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/11/2004-CS-1 dated 25.3.2004, the President is pleased to appoint the following regular Under Secretaries of the CSS and presently officiating as Deputy Secretary (in-situ) to Selection Grade of the CSS/Deputy Secretary on ad-hoc basis in the pay

scale of Rs. 12,000-375-16,500 in the Department of Revenue w.e.f. 25.3.2004 and until further orders.

Sl. No.	Name of the Dy. Secretary	Select List Year	Civil List No.
1.	Shri S.P. Sharma	1988	44
2.	Shri V.K. Sharma	1989	67
3.	Shri S.C. Gupta	1990	152
4.	Shri Rajeev Rai	1991	228
5.	Shri Anil Bahuguna	1991	234

The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List/Civil List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service.

R.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 5th April 2004

F. No. 3/35/2003-Cy. III.—The President is pleased to appoint Shri A.P. Kulkarni, Deputy Control Officer in India Security Press, Nashik Road as Control Officer (Group 'A'-Gazetted) in the pay scale of Rs. 8000-13500 in the same Press on regular basis with effect from the forenoon of 23rd March, 2004.

A.K. KHANNA, Under Secy.

The 5th May 2004

F. No. 3/8/04-Cy. III.—The President is pleased to appoint Shri D.C. Parmar, Assistant Chief Engineer (Mechanical), in the combined Cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road as Deputy Chief Engineer (Mechanical) in the same cadre in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (Group 'A' Gazetted) on regular basis with effect from the forenoon of 1.4.2004 and until further orders.

A.K. KHANNA, Under Secy.

The 6th May 2004

F. No. 3/40/03-Cy. III.—On attaining the age of superannuation Shri R.P. Kulkarni, Deputy Works Manager, in the Combined Cadre of India Security Press and Currency Note Press, Nashik Road relinquished charge of the post of Deputy Works Manager, Currency Note Press Nashik Road on 31.3.2004 (afternoon). His name stands deleted from the rolls of Currency Note Press with effect from that date.

A.K. KHANNA, Under Secy.

New Delhi, the 28th April 2004

No. A.12011/10/2004-Admn.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 21/06/2004-

CS.I(i) dated 16.04.2004, the President is pleased to appoint Ms. G. Madhumathi, a regular Section Officer of Finance Cadre as Under Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from 16.4.2004 (FN) and until further orders.

2. The aforesaid ad-hoc promotion of Ms. G. Madhumathi shall not confer any right to continue in the Grade I (Under Secretary) of CSS indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 30th April 2004

No. A.19011/4/2004-Admn.II.—The President is pleased to appoint Smt. Vini Mahajan, IAS (PB:87), as Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300 in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from 30.04.2004 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 6th May 2004

No.A-12011/1/2004-Admn.II.—In pursuance of O.M. No. 21/9/2004-CS.I, dated 25.03.2004 of Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 25.03.2004(FN) and until further orders:—

S/Shri

1. P.K. Rajpal
2. S.K. Bansal
3. R.D. Kataria
4. Ramesh Kumar
5. T.S. Nirmal
6. Swatantra Bandhu
7. Chinmoy Gupta
8. Jasmal Singh
9. R.P. Sharma
10. Vidya Sagar
11. S.K. Kataria
12. G.P. Saini

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:

- (i) Ad-hoc appointments, being a stopgap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

- (ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)/Direct Recruitment (DR). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these three categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers.

- (iii) Ad-hoc appointees in the grade of Section Officer will continue to work in the same Department until further orders. They may, however, be transferred to other cadres/departments while allocating the revised strength in the grade of Section Officer as a result of cadre restructuring of CSS or in the administrative exigencies.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A-12011/1/2004-Admn.II.—In pursuance of O.M. No. 4/2/2004-CS.II, dated 25.03.2004 of Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 1.4.2004 (FN) and until further orders:—

S/Shri

1. Ms. Sunita Saxena
2. P.C. Chhikara
3. R.N. Jha
4. S.K. Khurana
5. M.L. Sood
6. O.P. Yadav
7. S.K. Singh

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:

- (i) Ad-hoc appointments, being a stopgap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- (ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)/Direct Recruitment (DR). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these three categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers.
- (iii) Ad-hoc appointees in the grade of Section Officer will continue to work in the same Department until

further orders. They may, however, be transferred to other cadres/departments while allocating the revised strength in the grade of Section Officer as a result of cadre restructuring of CSS or in the administrative exigencies.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 7th May 2004

No. A.19011/6/2004-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Prashant, IAS (WB:88), as Director in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from 06.05.2004 (AN) for the balance period of his tenure i.e. upto 07.09.2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 5th May 2004

No. 14/2/01-DRT.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri R. Pandiyan, Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal-I, Chennai in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a further period of one year w.e.f. 19.4.2004 to 18.4.2005 or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

No. 14/2/01-DRT.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Yogesh Jain, Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal, Chandigarh in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- for a further period of one year from 15.5.2004 to 14.5.2005 or until further orders, whichever is earlier.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 11th May 2004

No.A.12025/1/2k1/MFCGA/Gr. A/649-58.—On the results of the Civil Services (Main) Examination, 2002 held by Union Public Service Commission in 2002, the President is pleased to appoint the following candidates as probationers in the Indian Civil Accounts Service (Group-A) with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri Homkar Amol Vinukant	22.3.2004
2.	Shri Alok Kumar Verma	22.3.2004
3.	Shri Rama Krishna Bandi	22.3.2004

Mrs. DHARITRI PANDA
Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 17th May 2004

No. A-32013/1/2002-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Chakraborty, IDAS (93), as Director (Vigilance) (Deputy Secretary Level) in DGS&D, in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on Central Deputation basis for a period of four years w.e.f. the forenoon of 11th May, 2004 or until further orders, whichever is earlier.

V. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 30th April 2004

No. A-12011/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sunjoy Joshi, IAS (MP : 83) as Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from 23.04.2004 (FN) for the balance period of his normal tenure of five years i.e. upto 20.03.2006 or until further orders whichever event takes place earlier.

Shri Sunjoy Joshi has assumed the charge of the office of the Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

L. S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 12th May 2004

No. A-19011/3/2002-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/7/2003-CS.I dated 21st April, 2004 and consequent upon inclusion in the Select List of the year 1996 of Grade I of the Central Secretariat Service, the President is pleased to appoint Shri Surya Maiti, Under Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Disinvestment as Under Secretary (Grade I of the Central Secretariat Service) on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 01.07.1996.

The appointment of Shri Maiti to the post of Under Secretary (Grade I of the CCS) shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others.

The actual benefit of pay and allowances in the post of Under Secretary (Grade I of the Central Secretariat Service) to Shri Maiti will be admissible from 30.10.1998, the date on which he had been appointed on in-situ basis to the post of Under Secretary (Grade I of the CSS) vide Ministry of Labour's Office Order No. A-11015/1/98-Admn. I, dated 20.11.1998.

S. K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 19th April, 2004

No. 17013/03/2000-IFS, II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service

(Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following seven officers of the State Forest Service of Bihar to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 1998, 1999 & 2000 and allocate them to Bihar & Jharkhand cadres respectively of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and also on the basis of order dated May/June 11, 2003, issued by the Department of Personnel and Training in the Central Government bifurcating the cadre of State Forest Service of erstwhile Bihar :—

Sl. No.	Name	Year of Select List	Date of Birth	Cadre allocated
S. Shri				
1.	J. P. N. Sinha	1998	22.01.1958	Jharkhand
2.	Anup Kumar Sinha	1998	01.07.1958	Jharkhand
3.	Babban Prasad Sinha	1999	01.07.1958	Jharkhand
4.	Yugal Kishore Singh	1999	28.04.1953	Jharkhand
5.	Sudhir Kumar Thakur	1999	01.03.1958	Bihar
6.	S. N. Pandey	2000	17.01.1956	Bihar
7.	Rajbansh Singh	2000	04.11.1957	Bihar

G. DEVNANI, Under Secy

New Delhi-110003, the 21st April 2004

No. 17013/05/2003-IFS. II.—In exercise of the Provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for the year 2003 was held on 27th October, 2003. Union Public Service Commission have now approved the Select List prepared in the said meeting containing the names of the following two members of the State Forest Service of Haryana towards filling up of promotion vacancies available in Haryana Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2003 :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Sh. S. K. Goyal	07.05.1949
2.	Sh. M. S. Malik	07.04.1949

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 1st May 2004

No. A. 12025/4/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pankaj Singhal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 17.09.2003 until further orders. Dr. Pankaj Singhal is posted as Medical Officer under Government of India Press, Mayapuri, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 5th May 2004

No. A. 12025/87/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajat Kumar Pradhan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22.03.2002 until further orders. Dr. Rajat Kumar Pradhan is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 7th May 2004

No. A. 12025/367/91-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Naresh Udaram Tabhane to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22.10.1991 until further orders. Dr. Naresh Udaram Tabhane is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organisation, Nagpur with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/469/92-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 09.11.1992 until further orders. Dr. Rakesh Singh is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 06th May 2004

No. A-19011/7/2004-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Chandrasenan, a regular Grade-I Officer of CSS, as Deputy Secretary on adhoc basis in the Department of Animal Husbandry & Dairying with effect from the forenoon of 24th March, 2004 and until further orders.

R. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th April 2004

No. A-12018/1/2003-Estt. I.—In pursuance of the approval as communicated by the DoPT vide their Dy. No. 169/2004/Estt. (A) dated 12.2.2004, Department of Expenditure's O.M. No. 61/2/2002-IC dated 15.03.2004 and Department of Economic Affairs I.D. No. 13016/2/2003-IES dated 12.04.2004, the posts of Economic Investigators Gr.-I (feeder posts to the Indian Economic Service) in the Ministry of Rural Development have been re-designated as Economic Officers (Group

13-Gazetted) with immediate effect in the pay scale of Rs. 6500-200-10500. Consequently, the present designation of the following Economic Investigators Gr. I of the Ministry of Rural Development have been changed as Economic Officer (Group B Gazetted) with effect from the forenoon of 28th April, 2004.

1. Dr. N.K. Sinha
2. Sh. Ram Pal Singh
3. Dr. Mahipal On Deputation at HIRD
4. Sh. Ranjan Mukerjee
5. Sh. Sube Singh
6. Sh. Raj Pal Singh
7. Sh. A. K. Bhatia
8. Sh. Sushil Kumar Jaswal
9. Smt. Renu Bhatnagar On Deputation at NCSK
10. Sh. Janak Rai
11. Sh. L. R. Bhatta
12. Sh. Damodar Bawari
13. Sh. Anil Kumar
14. Sh. P. S. Dalodiya
15. Sh. Ashok Kumar Singh
16. Sh. Niraj Srivastava

V. B. SINGH, Jt. Director (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi-110001, the 11th May 2004

No. 3-2/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Chaman Kumar, IAS (GJ : 78) as Joint Secretary in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, with effect from the forenoon of May 5, 2004 and up to afternoon of May 4, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier, in pursuance of Department of Personnel and Training's communication No. 4/2/2004-EO (SM.I) dated 22nd April 2004.

R. SAVITHRI, Dy. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
(NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES)

New Delhi, the 30th April 2004

No. F. 15-6/2001-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Gurbachan Singh, CSS, has relinquished charge of the office of Joint Secretary to the Government of India, National Commission for Minorities with effect from 30th April, 2004 afternoon.

S. C. GULATI, Under Secy.

The 5th May 2004

No. F. 15-2/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. Banerji, CSS, as Joint Secretary to the Government of India in the National Commission for Minorities.

Shri A. Banerji has assumed charge of the office of the Joint Secretary, National Commission for Minorities w.e.f. 30th April 2004 (Afternoon).

S. C. GULATI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th April 2004

No. NIC/PF/67/2004-Admn. I.—Shri Nand Kumar Mehta, Scientist 'F' (Emp Code No. 67), National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government Service w.e.f. 30.04.2004 (AN) and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 05th May 2004

No. A-19011/4/2004-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet Order No. 4/3/2004-EO (SM. I) dated 5th April, 2004 Shri Lambor Rynjah, IAS (AM : 74) assumed charge of the post of Joint Secretary, Department of Culture, Ministry of Tourism & Culture, with effect from the forenoon of 5th May, 2004.

ANJU BHALLA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAY
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th April 2004

No. ERB-1/2003/3/11.—Shri Anil Khatwani, Chief Law Assistant [Grade Rs. 6500—10500 (Group 'C')], Railway Board, is promoted to officiate as Superintendent (Legal), Railway Board (Group 'B' Gazetted) in Grade Rs. 7500-12000/-, on regular basis, with effect from 02.04.2004 (AN).

V. N. MATHUR, Secy.
Railway Board & Ex-officio Addl. Secy.

The 07th May 2004

No. ERB-I/2004/2/19.—Dr. D. K. Das, IRMS, Chief Medical Director, Northern Railway, is appointed as Director General, Railway Health Services, Railway Board, in Grade Rs. 26000/- (fixed), with effect from the forenoon of 19.04.2004.

V. N. MATHUR, Secy.
Railway Board & Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-I/2004/2/25.—Shri D. R. Sharma, HAG/IRTS, Adviser (Commercial), Railway Board, is appointed as Additional Member (Commercial), Railway Board, in Grade

Rs. 24050—26000/-, with effect from the afternoon of 21.04.2004.

V. N. MATHUR, Secy.
Railway Board & Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-I/2004/2/25.—Shri J. P. Batra, HAG/IRTS, Adviser (T&C), Railway Board, is appointed as Additional Member (T&C), Railway Board, in Grade Rs. 24050—26000/- with effect from the afternoon of 21.04.2004.

V. N. MATHUR, Secy.
Railway Board & Ex-officio Addl. Secy.

No. ERB-I/2004/2/25.—Shri L. R. Thapar, HAG/IRTS, Adviser (TT), Railway Board, is appointed as Additional Member (TT), Railway Board, in Grade Rs. 24050—26000/-, with effect from the afternoon of 21.04.2004.

V. N. MATHUR, Secy.
Railway Board & Ex-officio Addl. Secy.

New Delhi, the 7th May 2004

CORRIGENDA

No. 96/E (GR) I/3/I.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 96/E (GR) I/3/I dated 29.9.2000 may be deleted.

S/Shri

1. Anil Kumar Khare
2. Raju P. Bhadke
3. Akhilesh Sahu
4. Atul Kumar
5. Hari Singh

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

No. 96/E (GR) I/8/I.—The word provisional indicated against the name of Shri Bharatula Vishwanath mentioned in Railway Board's notification No. 96/E (GR) I/8/I dated 12.06.2001 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

No. 96/E (GR) I/9/I.—The word provisional indicated against the name of Shri Ramphool Chandel mentioned in Railway Board's notification No. 96/E (GR) I/9/I dated 18.10.2000 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

No. 99/E (GR) I/4/I.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide

Railway Board's notification No. 99/E (GR) I/4/I dated 04.08.2000 may be deleted.

S/Shri

1. Syed Md. Andaleeb Razi
2. Maneesh Kumar
3. Dilip R. Jawalkar
4. Ashish Kumar
5. Samir Shankar
6. Ravi Prasad Padi
7. Pankaj Uke
8. Pankaj Agarwal

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 19th April 2004

No. A-12032/1/2000-Estt.—The President is pleased to appoint, Sh. M. K. Trehan as Deputy Secretary (In-situ) in the Ministry of Shipping in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- for a period of seven years w.e.f. 01.04.2004 or until further orders, which may be earlier or later than the date of expiry of seven years tenure or till the date of superannuation, whichever event takes place the earliest.

S. K. SHAHI, Under Secy.

The 29th April 2004

No. A-12033/2/04-Estt.—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries (In-situ), who are presently posted in the Ministry of Shipping, as Under Secretaries (ad-hoc) in the same Ministry with effect from 25.03.2004:—

S/Shri

1. N. Barik
2. R. K. Bansal
3. G. R. Khetarpal
4. Subhash Chand
5. V. P. Rana
6. V. K. Aggarwal

S. K. SHAHI, Under Secy.

New Delhi-110001, the 13th May 2004

No. I-26011/18/02-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Shahi, presently working as Under Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Shipping, on regular basis w.e.f. 01.07.1996 in the same Ministry on being included in the Select List of Grade-I of Central Secretariat Service (CSS) for the year 1996.

A. K. BHALLA, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004